

JTEKT INDIA LIMITED

(Formerly known as Sona Koyo Steering Systems Limited)

Head Office: M3M Cosmopolitan, 1st Floor, Sector-66, Ramgarh Road, (Adjacent to Golf Course Extension Road), Gurugram - 122 002, Haryana, India. Tel: +91 124 478 3100, Fax: +91 124 478 3199.



26th August, 2020

The BSE Limited

Department of Corporate Services Floor 1, New Trading Ring Rotunda Building, P.J. Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400 001. Scrip Code - 520057

Listing Compliance National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block Bandra - Kurla Complex Bandra (E), Mumbai 400 051. Symbol - JTEKTINDIA; Series - EQ

Sub: Copy of notice published in the newspapers.

Dear Sir,

Please find attached herewith the newspaper notice published in the 'Business Standard (English and Hindi)' regarding information on 36th Annual General Meeting, book closure and final dividend of the Company.

We request you to take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully, For JTEKT INDIA LIMITED

NITIN SHARMA COMPANY SECRETARY

Regd. Office: UGF-6, Indra Prakash 21, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001, India.

Tel: +91 11 2331 1924 / 2332 7205, Telefax: +91 11 2332 7205 CIN: L29113DL1984PLC018415, Website: www.jtekt.co.in

Works: 38/6, Delhi-Jaipur Road, NH-8, Gurugram - 122 001, Haryana, India. Tel: +91 124 468 5000, Fax: +91 124 410 4611 / 410 4621.



Auto firms to ditch discounts, focus on digital experience

The second of a three-part series looks at changing strategies as festive season kicks off

SHALLY SETH MOHILE Mumbai, 25 August

f vou're a would-be car buyer and vou're expecting to get eye-popping discounts, offers and freebies this festive season, you're probably in for a disappointment. Pandemic-hit auto majors are likely to set aside these time-tested strategies for now, and, instead, focus on attractive finance schemes and an enhanced digital experience.

On an average festivals — from Ganesh Chaturthi right up to Diwali — account for anywhere between 17 and 19 per cent of the annual sales of passenger car makers. But officials at auto companies say that it is a tightrope walk for them this year





marketers. They will have STRATEGY to come up with innovative means to promote and sell their cars this festive season, as there is limited provision for discounts and incentives, says Shashank Srivastaya executive director, sales and marketing, Maruti Suzuki India. According

"It is a litmus test for

Srivastava, car makers have to ensure that the

demand momentum, which kicked in from June this year, gathers pace and sales rise at a faster clip. But companies have to do this at a fraction of last year's marketing budgets, since cash conservation tops their priority list this year.

The task, say experts, is not only to recoup the first quarter's volume loss, but also bring it on a par with last year's festive season sales. This is a challenge, given that consumers remain prudent with their household expenditure amidst the uncertainty induced by the pandemic.

Still, auto makers are doing what they can to woo buyers. Maruti, which has no major launches lined up for the festive season, plans to fully digitise car financing by offering end-to-end solutions. This will ensure that buyers do not have to visit a bank to complete the loan process. Starting from selecting the finance scheme to getting the approvals and having the loan disbursed to them everything will be done digitally.

"Until now, finance has not been a part of the carmakers' ecosystem," says Srivastava. Under the new e-finance option, which is currently in a pilot



FESTIVE CONTRIBUTION FOR MARUTI IN SOME STATES

Share in annual retail sales

13-14%	13-14%	8-9%
Kerala	Gujarat	Bengal
0nam	Navratras	Durga Pu

16-17% All India Navratra/Diwali

17-19% All India average for industry Navratras/Diwali

Source: Maruti

phase, everything can be done with a few clicks from the safety of the consumer's home, he says. Kavan Mukhtyar, partner and leader, automotive, at consultancy firm PWC, says car mak-

ers have an uphill task this festive season — revive sales at all costs, given that the first three months of the current fiscal were lost. "One can therefore expect sales this festive

season to surpass last year's," says Mukhtyar. While full-year sales will still see a drop of 20 per cent versus last year, car makers would at least have recovered some ground if festive season sales click this year, he says. Moreover, most car companies are likely to reduce their spends on print and television advertising, increasing their bet on digital advertising instead, he adds.

Experts say that a combination of pent-up demand and the need to own a personal vehi-cle amidst the health crisis has fuelled auto sales since June. Hence, some analysts and industry executives argue that companies need not resort to desperate sales measures this festive season.

"Given that there is a surge in demand, we do not see the need to offer any extra discounts. In fact, we believe that across the industry, the consumer offers will be similar or lower than last year, says Veejay Nakra chief executive, auto division, Mahindra and Mahindra (M&M).

Tarun Garg, director, sales and marketing at Hyundai Motor India, is even more confident. "For us, the festivals have started even before the season began," he said, alluding to the good response received for Hyundai's newly launched models, including the Creta,

Verna and Aura.

In August, Hyundai has already reached 100 per cent of last year's average in terms of sales, claims Garg, adding that sales are in an "auto-pilot mode" and that there is no need for an additional push.

Even so, for cost-effectiveness and better results, Hyundai has enhanced the share of digital in its overall media mix, says Garg. M&M, too, has come up with several digital interventions across the purchase cycle. This is to ensure that apart from maintaining social distancing the company is able to reach out to its cus tomers in a cost-effective way.

Flipkart: Fleet to be 100% EV by 2030, will build locally

Bengaluru, 25 August

Flipkart would transition 100 per cent into electric vehicles (EVs) by 2030 in India as part of its commitment to long-term sustainability across its ecommerce value chain.

The Walmart-owned firm would do this by joining the Climate Group's global electric mobility initiative, EV100.

The initiative brings together forward-looking companies committed to accelerating the transition into EVs and making electric transport the new normal by 2030.

According to sources. Flinkart is expecting to have more than 35,000 electric vehicles by 2030 and will include 3-wheeler, 4-wheeler and 2wheeler vehicles, which would be designed and manufactured in India. The company would be working with various local original equipment manufacturers (OEMs), aggregators and start-ups to build these vehicles which would be optimised for the e-commerce industry.

"With our scale, scope and intense focus on the sustainability agenda, we believe we can play a significant role in not just fast tracking the adoption of electric vehicles but also making clean mobility mainstream," said Kalyan Krishnamurthy, chief executive officer (CEO), Flipkart Group.

Flipkart said it is committing to a phased integration of electric vehicles into its entire fleet (directly owned



WITH OUR SCALE AND SCOPE AND INTENSE FOCUS ON SUSTAINABILITY AGENDA. WE BELIEVE WE CAN PLAY A SIGNIFICANT ROLE IN NOT JUST FAST-TRACKING THE ADOPTION OF ELECTRIC VEHICLES BUT ALSO MAKING CLEAN MOBILITY MAINSTREAM"

or leased corporate fleets) by 2030. This will be done through placing requirements in service contracts and installing charging infrastructure close to its 1,400 supply chain premises. Flipkart said it will spearhead the sector's sustainability transformation and support India's ambition of ensuring 30 per cent electric mobility by 2030. He added, "We will work with vehicle manufacturers to design EVs, more suited for e-commerce purposes. You're eventually talking about the pan-Indian rollout and you need September, according to the sources.

Ola Electric to hire 2K; launch e-scooter soon

Ola Electric Mobility (Ola Electric), the ride-hailing firm's electric vehicle arm, is planning to hire about 2,000 people, including 1,000 engineers globally, Ola co-founder and Chief Executive Officer Bhavish Aggarwal said in a note to the employees.

"The automotive industry has also evolved significantly over the last few months and the message is very clear — the future belongs to electric and connected mobility. said Aggarwal. "I'm very excite about the work we are doing at 0la to build this future of mobility,

Over 1,000 engineers will be recruited globally over the next quarter and another 1,000 across other functions.

to have reliable vehicles and support network in the hinterlands. So that's really going to be a key consideration in the roadmap."

Electrification of its entire logis tics fleet is a key part for it's larger sustainability goal and the EV100 commitment is in line with that. Flipkart has already deployed EVs in various cities including Delhi, Hyderabad and Bhubaneswar. Pilots have been successfully conducted in Pune, Mumbai, Bengaluru, Kolkata and Lucknow. Deployment will begin in

Apple to open India online store next month

Apple is poised to open an online store for the first time in the fast $growing\,smartphone\,market\,of\,India$ next month, according to a person with knowledge of the matter, taking advantage of a relaxation of once-

strict prohibitions against foreign direct retail. The online store will be ready for operations just ahead of the festive

Dussehra-Diwali spending season, according to the person, who asked not to be named discussing confidential plans. The iPhone maker, which lobbied New Delhi for $years \, to \, get \, around \, regulations \, that \,$ force companies such as Apple to source 30 per cent of components locally, had originally planned to start online sales within months after the government relaxed the rule last ar. Those plans were disrupted by the Covid-19 pandemic.

The iPhone maker, which has just made history by surpassing \$2 trillion in market value, is boosting investments in the country to reduce its dependence on China both as a market and manufacturing base amid escalating tensions between Washington and Beijing.

The firm also plans to open a second brick-and-mortar store in Bengaluru, following an outlet in Mumbai that will be its first physical location in the country. BLOOMBERG

JTEKT JTEKT INDIA LIMITED

erly known as Sona Koyo Steering System (CIN – L29113DL1984PLC018415) Regd. Office: UGF-6, Indraprakash, 21, Barakhamba Road, New Delhi 110001.
Tel.: 011-23311924, 23327205
E-mail: investorgrievance@jlekt.co.in; Website: www.jtekt.co.in

INFORMATION REGARDING NOTICE OF 36TH ANNUAL
GENERAL MEETING ('AGM') TO BE HELD THROUGH
VIDEO CONFERENCE (VC) / OTHER AUDIO VISUAL MEANS
(OAVM), BOOK CLOSURE AND FINAL DIVIDEND

The AGM of the members of the Company will be held on Wednesday the 23rd September, 2020 at 11.00 a.m. through VC/OAVM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('Act') and the Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated 8th April, 2020, 13th April, Volume 14 the Very November 14 the Very November 15 the Ver 2020 and 5th May, 2020, respectively, and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI to transact the businesses that will be set forth in

The Notice of AGM and Annual Report shall be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the Company's website i.e. www.itekt.co.in and on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

Manner of registering / updating email addresses

a) Members holding the shares in physical form, who have not registered / updated their email addresses with the Company, are requested to register / update the same by writing to its Registrar and Transfer Agent ('RTA') at einward.ris@kfintech.com or Company at investorgrevance@tekt.co.in along with the copy of signed request letter mentioning the name and address of the member, self-attested copy of PAN card and self attested copy of any other document (e.g. Driving License, Voter ID card, Passport etc.) in support as address proof of the member as registered with the Company.

b) Members holding shares in dematerialized form, who have not registered / updated their email addresses are requested to register / update their email addresses with the Depository Participant with whom they maintain their demat accounts.

1) Manner of casting vote(s) through e-voting

Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the businesses as set forth in the Notice of AGM through electronic voting system (e-voting). The manner of voting remotely ('remote e-voting') by members holding shares in demateralised form, physical form and for members who have not registered their email addresses, has been provided in the Notice of AGM which shall also be available on the website of the Company i.e. www.jtekt.co.in.

b) The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the AGM and members attending the AGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the AGM.

) The login credentials for casting the votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose mail addresses are not registered with the Company/RTA/Depository Participant(s) may generate login credential by following instructions given in the Notes to Notice of AGM.

Book Closure for dividend and payment thereof

a) The Company has fixed Book Closure from Thursday the 17th September, 2020 to Wednesday the 23rd September, 2020 (both days inclusive) for determining entitlement of members to dividend for the Financial Year 2019-20

b) Subject to the approval of members, Dividend will be paid to the members on th basis of details of beneficial ownership furnished by the Depositories, as at the close of 16th September, 2020 and in respect of shares held in physical form to those members whose name will appear in the Register of Members of the Company as on Thursday the 17th September, 2020.

c) As per the relevant circulars, payment of dividend shall be made mode to the members who have updated their bank account details. Dividend Warrants / Demand Drafts will be dispatch to the registered addresses of the members who have not updated their bank account details, after normalization of postal services.

applicable rates. For more details, please refer to the communication attached with the Notice of AGM.

6) Manner of registering mandate for receiving Dividend

Members are requested to register / update their complete bank details

b) With the Company (where shares are held in physical form) by sending a duly signed letter, mentioning the name of the member, folio number, bank details, self-attested copy of PAN and a cancelled cheque leaf, addressed to the Company /

shares are held in dematerialized form, by submitting the requisite documents; and

) Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting at the AGM.

For JTEKT India Limited Nitin Sharm





DISH TV INDIA LIMITED Regd. Office: 18th Floor, A Wing, Marathon Futurex, N M Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 CIN: L51909MH1988PLC287553, Tel.: 0120-5047005/5047000, Fax: 0120-4357078

E-mail: investor@dishd2h.com, Website: www.dishd2h.comNOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 2" day of September 2020, inter-alia, to consider, approve and take on record the Un-Audited Financial Results of the Company for the 1st quarter and three months period ended June

The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.dishd2h.com and the website of Stock Exchanges where the Company's shares are listed i.e. the National Stoci Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).

Date: August 25, 2020

Ranjit Singl Company Secretary & Compliance Office Membership No.-A1544



PEARL GLOBAL INDUSTRIES LTD. (CIN: L74899DL1989PLC036849)

Read. Off: A-3.Community Centre. Naraina Industrial Area, Phase-II, New Delhi -110028 Pearl Global E-mail: investor.pgil@pearlglobal.com Website: www.pearlglobal.com Phone: 0124-4651000

NOTICE TO SHAREHOLDERS

For transfer of shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

(As per Section 124(6) of the Companies Act, 2013)

Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act 2013 read with Investor. Education and Protection Fund (IEPF) Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules"), the Company is required to transfer the shares, in respect of which the dividend remains unpaid or unclaimed for a riod of seven consecutive years or more to the IEPE Accounestablished by the Central Government

The Company has sent individual communication to the concerned shareholders who have not claimed their dividend for the financia vear 2012-13 and all subsequent dividend declared and paid by the Company, which are liable to be transferred to IEPF Account as per the said Rules.

A list of such shareholders who have not claimed their dividend for seven consecutive years and whose shares are therefore liable for transfer to the IEPE Account is available on the website of the Company at https://www.pearlglobal.com/investors/unpaidunclaimed-dividend.

Shareholders are requested to forward requisite documents as mentioned in said communication to the Company's Registrar and Share Transfer Agent on or before 25th October, 2020, to claim the shares and unclaimed dividend amount(s). Notice is hereby given that in the absence of receipt of a valid claim by the shareh the Company would be transferring the said shares to IEPF Account without further notice in accordance with the requiremen

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. Please note that, upon such transfer, shareholders can claim the transferred shares along with dividend from the IEPE for which details are available at www.iepf.gov.in

For any information / clarifications on this matter, concerned shareholders may write to the Company at investor.pgil@ pearlglobal.com or contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent - M/s. Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market Janakpuri, New Delhi - 110058, Phone: 011- 49411000. E-mail: delhi@linkintime.co.in

Date: August 25, 2020

For PEARL GLOBAL INDUSTRIES LTD

DYNAMATIC TECHNOLOGIES LIMITED CIN: L72200KA1973PLC002308 Registered Office: Dynamatic Park, Peenya, Bangalore - 560058 Tel. No.: +91 80 28394933/34/35 Fax No.: +91 80 28395823

email: investor.relations@dynamatics.net, Website: www.dynamatics.com NOTICE is hereby given pursuant to the Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, 31st August 2020, at the registered office of the Company, to inter-alia, consider and approve the Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the first guarter ended 30th June 2020.

In accordance with the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 read with Code of Conduct of the Company the Trading Window for dealing in the securities of the Company has been closed from 1st April 2020, and will re-open after 48 hours from the publishing of results of the Company for the quarter ended 30th June 2020. All Insiders are informed to abstain from trading in the Company's shares when the Trading Window is closed. By order of the Board

Sd/- Shivaram V. Place : Bangalore Head-Legal, Compliance Date: 25th August 2020 & Company Secretary

ADHUNIK INDUSTRIES LIMITED

CIN-L27100WB1979PLC032200

Regd. Off.: 14, N.S. Road, 2nd Floor, Kolkata-700 001, Phone: 033-6638 4700, Fax: 033-2289 0285

Website: www.adhunikindustries.com | E-mail: investorsail@adhunikgroup.co.in NOTICE OF THE 41ST ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD

THROUGH VIDEO CONFERENCING AND INFORMATION ON BOOK CLOSURE DATE NOTICE is hereby given that the 41st Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Tuesday, September 29, 2020 at 02:30 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") Other Audio Visual Means ("OAMM") provided by the Central Depositories Services (India) Limited ("CDSL") to transact the business, as set out

Central Depositories Services (India) Limited (**'CDSL')** to transact the business, as set ou n the Notice of AGM which is being circulated for convening the AGM. As one of the measure to contain the spread of the Covid-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its circulars dated May 5, 2020 read with circulars Corporate Affairs ("MCA") has vide its circulars dated May 5, 2020 read with circulars' dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of AGM(s) through VC/ OAVM, without physical presence of Members at a common venue. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA circulars, the AGM of the Company will be held through VC/ OAVM. Members can attend and participate in the AGM through the VC/ OAVM facility only. No provision has been made to attend and carticipate in the 41st AGM DAVM facility only. No provision has been made to attend and participate in the 41st. AGM of the Company in person to ensure compliance with the directives issued by the Sovernment authorities with respect to Covid-19. The instructions for joining the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Members attending the meeting through VC / OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companie AGM 2013.

anies Act. 2013 ce with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020 In compliance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circular dated May 12, 2020. Notice of AGM along with the Annual Report 2019-20 is being sent only through electronic mode to those Members mhose e-mail addresses are registered with the Company of Depositories. Members, may note that the e-copy of the Annual Report 2019-20 along with the Notice of the 41st AGM will be available on the website of the Company at www.adh.unikindustries.com and on the website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited and Calcutta Stock Exchange Limited at ww.bseindia.com, www.nseindia.com and www.cse-india.com respectively

The Company is providing the remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Wembers to cast their votes on all resolutions set out in the Notice of AGM. Additionally, the wembers to cast their votes on ail resolutions set out in the Notice or ALAM. Additionally, in Company is providing the facility of voling through e-voting during the AGM ("e-voling") it those members who will be present in the AGM through VC / OAVM facility and have no cast their vote through remote e-voling. Detailed procedure for remote e-voling / e-volin for shareholders holding shares in Dematerialized mode. Physical mode and for shareholders who have not registered their e-mail address is provided in the Notice of shareholders.

AGM. Members who have not yet registered their e-mail addresses, PAN and phone number are requested to follow the process mentioned below - a) Members holding shares in physical mode are requested to update their e-mail addresses, PAN and phone number with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) in order to receive Notice of 41st Annual General Meeting, Annual Repor (2019-20) and login credentials for e-voting by uploading the same at: Link for updation of e-mail ID-http://mdpl.in/form/pan-update b) Members belding shares in dematerialized mode are requested to register / update

) Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update neir e-mail addresses, PAN and phone number with the relevant Depository Participants. n case of any queries, shareholder may write to the Company a vestorsail@adhunikgroup.co.in ursuant to Section 91(1) of the Companies Act, 2013, the shareholders may note that the

Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed rom Wednesday, September 23, 2020 to Tuesday, September 29, 2020 (Both days nclusive). It is to be noted that no dividend had been recommended by the Board of Directors of the Company for the financial year ending on March 31, 2020. Bharat Agarwa

FACT THE FERTILISERS AND CHEMICALS TRAVANCORE LTD ogress (A Govt. of India Enterprises) Regd. Office : Eloor ERIALS, PD ADMINISTRATIVE BUILDING, UDYOGAMANDAL-683 501, KOCHI, KERALA, INDIA

ATERIALS, PU AUMINISTRATIVE BUILDING, DUTUGAMATURAL 1903 301, NOOM, NEMBERS, NOOM, NEMBERS, NOOM, NEMBERS, NOOM, NEMBERS, NOOM, NEMBERS, NOOM, NEMBERS, NEMB

E-mail:ngeetha@facttld.com / geethakg@facttld.com | Website: http://www.fact.co.in

E TENDER FOR SUPPLY OF SS TUBES FOR

AMMONIA CONDENSER E-510 FOR AMMONIA PLANT

UDYOGAMANDAL DIVISION

Tender No. MM/161/E21978 | Dated 21-08-2020

Tenders [Online bidding] are invited only from Manufacturer of SS TUBES, PIPES & PLATES etc. for supply of SS TUBES SA 213 GR. 1P304, 19.05 mm 00 x 1.65 mm thk.

(min) x 12006-0/+3)mm long-1800 Nos. through https://e-procure.gov.in portal. Interested parties may visit our website (www.fact.co.in) or Central Public Procurement Portal (https://e-procure.gov.in) for tender details and further updates on the tender including extension of due date, if any. EMD-Rs.1.00 Lakh.

Sd/-

ue Date/Time for Submission of Bids: Deputy General Manager (Materials) ESS

ZODIAC - JRD -MKJ LIMITED

	Rs. in lacs					
		Quarter ending			Corresponding Previous Year ended	
Sr	Particulars	30.06.2020 (Un-Audited)	31.03.2020 (Audited) Refer Note No 2	30. 06. 2019 (Un- Audited)	31. 03. 2020 (Audited)	
1	Total Income from operations	12.10	421.14	317.84	1313.19	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.33	3.74	21.49	70.94	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.33	3.74	21.49	70.94	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	6.12	3.82	14.63	49.40	
5	Total Comprehensive Income for the Period Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)	0.03	0.11	0.12	0.10	
6	Equity Share Capital	517.72	517.72	517.72	517.72	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	_	-	-	6166.09	
8	Earings Per Share (of Rs.10 /- each) (for continuing and discontinued operations)- 1. Basic: 2. Diluted:	0.12 0.12	0.07 0.07	0.28 0.28	0. 95 0. 95	

Notes to the Unaudited Financial Results:

views of the "ultrauther inflancian Results." The above Unsatiolid Francial Results prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed un Section 133 of the Companies Art, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015, and relevant amendment rules thereafter. These unaudited financial results have been reviewed by the Audit Committee and there by the Board of Directors at their respective meeting had on 25th August, 2020 and the same had been subjected to a Lim

by the Board or Unexposts at their respective intensity intensity intensity and intens

COUID-19 outbreak was declared a jobb parlametry by Nivor Harb (Digazazian, Or Marcin 11, 2001, Mir amounted a strict 21-day lockdown which was further extended until May 13, 2020 across the country to ontain the spread of the amounted a strict 21-day lockdown which was further extended until May 13, 2020 across the country to ontain the spread of the white. On May 13, 2020 the Government amounted a phased repropring of certain activities suicide specified continement zones. Some of the states further extended the lockdown was while the lockdown was extended to June 90, 2020 in such containment zones. Some of the states further extended the lockdown to July 31, 2020. The impact of COVID-19 and consequence behaviour and parelenic fears, sevel as restrictions on business and individual activities, has led to significant voisibility in global and Indian financial markets and a significant decrease in business and individual activities, has led to significant voisibility in global and Indian financial markets and a significant decrease in business and individual activities, has led to significant voisibility in global and Indian financial markets and a significant decrease in lock and the second of the company and the second of the company and the second of the contractive of the Company adversary to the quarter ended 500 June 2020. This unproceedented discipling his has had a regader integer of the Company adversary to impact the business and financial results, in this crisis, our priorities are to protect the employees and their families from COVID-19. The Company ableys that the accentage is not become the company adversary to COVID-19. The Company ableys that the accentage is not become the company adversary to COVID-19. The Company ableys that the accentage is not protect the company adversary to vocament or vilject uter userines and internation feature. In this crisis, our priorities are to protect the employees and f. OVCIDV-19. The Concorpany believes that the praderities is not likely in proagat the carrings value of assets. The Composition of the development and possible effect that may result from the current panderitie on its financial possible effect that may result from the current panderitie on its financial possible effect that may result from the current panderitie on its financial possible or programment of the soft production and its actively working to minimize the impact of this unprecedented situation. As the situation is confine the eventual impact may be different from the estimates made as of the date of approval of these financial results.



गाखा कार्यालयः ऊपरी भूतल, प्लॉट सं. 30/80–बी, मुगल अपार्टमेंट, फतेहाबाद रोड,ताजगंज आगरा– पिन 282001 आंचलिक कार्यालयः तृतीय तल, यूपीसीबी बिल्डिंग 2, एमजी रोड, हजरतगंज, लखनऊ–226001

शुद्धि–पत्र

बैंक की ओर से मेगा ई-नीलामी 19.09.2020 को निर्घारित है। इस हेतु नीलामी सूचना बिजनेस स्टैण्डर्ड (हिन्दी व अंग्रेजी) समाचार-पुत्रों में 18.08.2020 को प्रकाशित की गई थी। सूचना में शांशिक परिवर्तन के तहत :

क्रम संख्या 16 पर उल्लिखित प्रतिभूति संपत्ति का विवरण दकान (प्राईवेट रुम) सं. ०४, के.वी. कॉम्प्लेक्स, गली ठठेरा चीक वाजार मधुरा (उ.प्र.)' के स्थान पर "वुकान सं. 202, द्वितीय तल, प्रॉपर्टी वॉटर रेट सं. 512 से सी का शाग, क्षेत्रफल 6. 92 वर्ष मीटर, श्री इरि कॉस्प्लेयस, मोइल्ला — हनुमान टीला, चौक

22 वर्ष मीटर, श्री हिरे कॉन्स्वेक्स, मोहल्ला — हुनुमान टीला, चौक बाजार, मुखुर (ड.प्र.)) " एवा जाए! 2. कम संख्या 5 पर उलिलखित प्रतिमृति संगत्ति का विवरण मकान नं. 03, नगर निगम सं. 173/424/1, वार्ड सं. 12, खसरा सं. 522 एवं 524, मोजा— जयसिंस्पुरा, बांगर, माधव कुंज, निकट गयधी तथामूमी, तस्त्रीत एवं जिला मुखुरा (ड.प.) श्रेजकल 107. 25 वर्ग मीटर के स्थान पर "मकान नं. 03, नगर निगम सं. 173/424/1, बार्च सं. 12, खसरा सं. 522 एवं 524, मौजा— क्यसिंस्पुरा, बांगर, माधव कुंज, निकट पानशी तथामुमी, तस्त्रीति एवं जिला मसुरा (उ.प्र.) क्षेत्रफल 107.25 वर्ग गण" पढ़ा जाये। सूचना की अन्य सामग्री अपरिवर्तित रहेगी। प्राविकृत अधिकारी

dishti/)

DISH TV INDIA LIMITED Regd. Office: 18th Floor, A Wing, Marathon Futurex, N M Joshi Maro. Lower Parel. Mumhai-400013

Corporate office: FC-19, Sector-16A, Noida-201 301, (U.P) CIN: L51909MH1988PLC287553, Tel.: 0120-5047005/5047000, Fax: 0120-4357078 E-mail: investor @dishd2h.com, Website: www.dishd2h.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements! Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, the 2^{nt} day of September 2020, inter-atia, to consider, approve and take on record the Un-Audited Financial Results of the Company for the 1st quarter and three months period ended June 30, 2020, of the financial year 2020-21.

The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.dishd2h.con and the website of Stock Exchanges where the Company's shares are listed i.e. the National Stoci Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and BSE Limited (www.bseindia.com).

丣.

d2h

Place: Noida Date: August 25, 2020

Ranjit Singh Company Secretary & Compliance Office Membership No.-A1544

कब्जा सूचना

जबिक, असेट रिकंस्टक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड (आर्सिल) के प्राधिकत अधिकारी ने वित्ती भारितयों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन औ गतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तिर का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्निलिखित कर्जदारों से उक्त सूचनाओं में उनके संबंधित नाम के सामने वर्णित राशियां, उन पर लाग् दरों पर ब्याज के साथ, उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर, आगे भुगतान ाथा / अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चे, लागतें, प्रभा त्यादि चुकाने की मांग की गई थी।

क्र.	कर्जदार का नाम/सह-कर्जदार का नाम/	नियत तिथि /	कब्जा की
सं.	ऋण खाता संख्या	कुल बकाया राशि (रू. में)	तिथि एवं प्रकार
1	विवेक जैन / दीपाली जैन/ रोहित जैन /	28—सितम्बर—2019	सांकेतिक
	9600000594	रु. 1,66,14,801.43/-	21.08.2020

सम्पत्ति का वर्णन: प्लॉट नं. 399, सेकेंड फ्लोर, योजना विहार, दिल्ली—110092, श्री विवेक जैन और श्री रोहि नैन के नाम पर । प्रवेश क्षेत्र 182.20 वर्ग गज । चौहद्दी : पूर्व—प्लॉट नं. 400, पश्चिम — प्लॉट नं. 398, उत्तर -

2	गर्वित सिंहल / लता रानी / उमेश चंद्र /	23—जनवरी—2020	सांकेतिक			
	एसएलपीएचडीएलएचआई0000025 /	₹. 64,84,972.09/-	21.08.2020			
	एसएलपीएचडीएलएचआई0000050	12.28.300.06/-				

सम्पत्ति का वर्णन् रेजिडोंशियल और व्यावसायिक प्लॉट पुराने नंबर —25 और नए नंबर —69, भूतल और पहली मंजिल, कल्लुपुरा, गाजियाबाद,राज्य उत्तर प्रदेश। जिसकी मापें क्रमशः 22 वर्ग मी. दुकान जो की भूतल पर और 31.35 वर्ग मी. जो कि फर्स्ट फ्लोर (रेजिडेशियल)। चौहददी : उत्तर : दवारका दास की संपत्ति और 8 फीट की कार्यन में नहीं के अन्य पता है। अन्य पता है। जिल्ला कार्यन में निर्माण कार्यन के स्वान कार्यन के स्वान कार्यन किंमन मैलरी, दक्षिण : हाउस और सल्ला, पूर्व : हाउस ऑफ प्रेम, परिवास : दिनेश कुमार की शॉप औ कर्मार्शियल प्रॉपटी बीइंग शॉप नंस्वन 7. भूतल (बिना छत्त के अधिकार) नगर निगम (पुराना नंबन 25. नया नंस्क s1) वर्तमान नंबर 136, कल्लुपुरा डासना रोड, गाजियाबाद, शहर गाजियाबाद, राज्य—युपी, 10.52 वर्गमीट ज । चौहद्दी : उत्तर : शॉप नंबन ०८, दक्षिण : शॉप नंबन ०६, पूर्व : हाउस ऑफ लाल सिंह, पश्चिम : कॉमन

जबिक इसमें ऊपर वर्णित कर्जदार बकाया राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदारों को वि हुप से और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि आर्सिल के अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के निय 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ह यहां ऊपर वर्णित संपत्तियाँ/प्रतिभूत आस्तियों का **सांकेतिक कब्जा** उपरिवर्णित तिथियों को प्राप्त क लिया है। विशेष रूप से ऊपर वर्णित कर्जदारों तथा जनसाधारण को उपरोक्त संपत्तियाँ/प्रतिभू आस्तियों के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और उपरोक्त संपत्तियों / प्रतिभृ आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा।

थान : दिल्ली तिथि : 26-08-2020

हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटे

असेट रिकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड सीआईएन : U65999MH2002PLC134884, वेबसाइट: www.arcil.co.in

पंजीकृत कार्यालय : दि रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई–40002

फान : + 91 / 2009 31 मार्च अपने क्षाचित्र के प्रतिकृति के प्रति के प्रतिकृति के प्रति के प्रतिकृति के प्रति होन : 011--46370444

SICO SIRCA PAINTS INDIA LIMITED

NOTICE

12, 2020 (rollottively referred to as Circulars).

In compliance with aforesaid circulars, the Notice convening the 15th AGM and Annual Report for the Financial Year, 2019-2020 has been sent on 24th August, 2020 to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s).

The Cut-off Date for determining eligibility of members for voting through Remote e The Cut-off Date for determining eligibility of members for voting indirect the AGM is (Friday) 11th September, 2020 ("Cut-off Date") only shall be entitled to vote through Remote e-voting and at the AGM. Any Person who becomes a member of the Company after dispatch of the Notice but holds shares as on the Cut off date is Friday, 11th September, 2020, may obtain the Login ID and password by sending request to emeetings@kfintech.com.

Member can also download Notice, Annual Report and Instructions for Remote E-Vitting & Vitting Conference (Other Auditoristics Montage are available on the

Voting & Video Conferencing/Other Audiovisual Means are available on the

For and on behalf of SIRCA PAINTS INDIA LIMITED Place: DELHI

JTEKT

जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : यूजीएफ–6, इन्द्रप्रकाश, 21, बाराखम्बा रोड, नः फोन नंबर : 011-23311924, 23327205 ई-मेल: investorgrievance@jtekt.co.in; वेबसाइट: www.jtekt.co.ir

वीडियो कांफ्रेस (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से 36वीं वार्षिक सामान्य बैठक('एजीएम') के आयोजन, बही बंदी तथा अन्तिम लागांश के संबंध में सूचना

) कम्पनी के सदस्यों की एजीएम, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों के निष्पादन हेतु, बुधवार 23 सितंबर 2020 को पूर्वी. 11.00 बजे, कम्पनी अधिनियम 2013 ('अधिनियम) के लागू प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गति विरिचत नियमावती और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतार्थे) विनियमावति 2015 के साथ पठित कापेरिट मंत्रातय ('एमसीए') द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 क्रमानुसार दिनांकित 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 एवं 5 मुई 2020 तथा कापीरेट मंत्रातय ('एमसीए') एवं सेबी द्वारा जारी अन्य सर्कुलर्स के अनुपालन में, वीसी/ओएवीएम के माध्य से आयोजित की जाएगी।

राजायाजार ज जा? एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट उन समस्त सदस्यों को प्रेषित की जाएगी, जिनकें ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट(पार्टिसिपेंट्स) के साथ पंजीकृत हैं। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.jlekt.co.in तथा स्टॉक एक्सचेंजज की वेबसाइट

नामतः www.bseindia.com और www.nseinda.com पर भी उपलब्ध होंगे। ई-मेल पतों के पंजीकरण/अद्यतनीकरण की विधि

क) जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, जिन्होने कम्पनी के साथ अपने ई-मेत ा जन संदस्या क पास भातिक रूप में श्रयर है, जिन्होंने कम्पनी के सीथ अपन हु-मल पतों का पंजीकरण/अद्यतनीकरण नहीं करवाया है, उनसे अनुरोध है कि वे उसक पंजीकरण/अद्यतनीकरण इसके रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट (आरटीए) को einwandis@kfintech.com पर अथवा कम्पनी को investogievance@lekt.com पर संदर्भ के नाम और पता के उत्सेखयुवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति तथा कम्पनी के पंजीकृत सदस्य के रूप में पता प्रमाण के समर्थन में किसी अन्य दस्तावेज (जैसेकि ड्राइविंग लाइसेन्स, वोटर आईडी कार्ड, पासपोट इत्यादि) की रव—सत्यापित प्रति सहित भेज कर करवा लें।

ख) जिन सदस्यों के पास अभौतिक (डीमैटीरियलाइज्ड) रूप में शेयर हैं, जिन्होने कम्पनी के साथ अपने ई–मेल पतों का पंजीकरण/अदातनीकरण नहीं करवाया है, उनसे अनरोध है वे अपना ई–मेल पता उस डिपॉजिंटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत/अद्यत करवा लें, जिसके पास उनका डीमैट खाता अनुरक्षित है।

. ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने की विधि

श्री पर प्रतिप्त के पास एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम (ई-वोटिंग) के माध्यम से अपना वोट डालने का अवसर होगा। अमीतिक रूप में, मीतिक रूप में घेयरों का घारण करनेवाले सदस्यों तथा अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं करवा सके सदस्यों के लिए रिमोटती वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) द्वारा मतदान करने की विधि का उल्लेख एजीएम की सूचना में उपलब्ध है, जो कि कम्पनी की

वेबसाइट नामतः www.itekt.co.in पर भी उपलब्ध होगी। ख) इलेक्ट्रॉनिक वीटिंग सिरन्य के माध्यम से मतदान करने की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध करायी जाएगी तथा एजीएम में भाग ले रहे सदस्यगण, जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, एजीएम में अपना वोट डाल सकेंगे।

 ग) ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगइन क्रेडेन्शियल्स सदस्यों को ई-मेन इन्यारिक प्रभावन से पाट जाएंगे। जिस सामझ अकारायरिक स्वस्य आ इन्यार्क के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। जिस सदस्यों को ईन्सेल प्राप्त नहीं हो अथवा जिनका मेल पता कम्पनी/आरटीए/डियॉजिटरी पार्टिसिपैट(पार्टिसिपैट्स) के साथ पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना की टिप्पणियों में दिए गए निम्नलिखित अनुदेशों का पालन कर लॉगइन क्रेडेन्शियल्स सुजित कर सकते हैं।

लाभांश एवं उसके भुगतान हेतु बही बंदी

क) कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 हेत् लाभांश पर सदस्यों की हकदारी निर्धारित करने वे लिए बृहस्पतिवार 17 सितंबर 2020 से बुधवार 23 सितंबर 2020 (दोनों दिन सम्मिलित तक बही बंटी निर्धारित की है।

ख) सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, सदस्यों को लाभांश का भुगतान, 16 सितंबर 2020 के कार्य समाप्ति के समय डिपॉजिटरीज द्वारा जारी लाभार्थी स्वामियों के विवरणों वं आधार पर तथा भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों के संबंध में. उन सदस्यों को किया जाएगा, जिनका नाम गुरुवार 17 सितंबर 2020 को कम्पनी के सदस्यों की पंजिक

ग) संबद्ध सर्कुलर्स के अनुसार, जो सदस्य अपना बैंक खाता विवरण अद्यतन करवा चुके हैं उनको लामांश का मुगतान इतेक्ट्रॉनिक विधि के माध्यम से किया जाएगा। जिन सदस्यों ने अपना बैंक खाता विवरण अद्यतन नहीं करवाया है, उनको लामांश वारद्स/किंगांड झाण्ट्स, उनके पंजीकृत पतों पर, डाक सेवाएं सामान्य होने के बाद प्रेषित किए जाएंगे।

घ) लाभांश का भुगतान लागु दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अधीन होगा अधिक विवरण के लिए कृपया एजीएम की सूचना के साथ संलग्न संदेश देखें। लाभांश प्राप्त करने के लिए अधिकार-पत्र पंजीकरण की विधि

सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना संपूर्ण बैंक विवरण निम्नलिखित के पास पंजीकृत/ अद्यतन करवाएं :

क) यदि शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं, तो जिस डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट के पास आपक

डीमैट खाता है, उसके पास आवश्यक दस्तावेज जमा करने द्वारा : तथा काम की त्या (जहां शेयर भौतिक रूप में घारित हैं), कम्पनी/आरटीए को संबोधित सदस्य का नाम, फोलियो नंबर, बँक विवरण के उल्लेखयुक्त विधिवत हस्ताक्षारित प्रः

के साथ पैन की स्वयं-सत्यापित प्रति तथा एक निरस्त चैक लीफ भेजने द्वारा। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध समस्त टिप्पणियों को तथ विशेषतः, एजीएम से जुड़ने के अनुदेश, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने अथवा एजीएम में वोट डालने की विधि ध्यानपूर्वक पढ़ तें। वास्ते जेटेक्ट इंडिया लिमिटेड

नितिन शम

CIN: L24219DL2006PLC145092

Regd. & Corporate office: Plot No. 50, Phase-2, Badli, Industrial Area, Delhi -110042/
Tel: +91-11-42083083 Website: https://sircapaints.com/Email: info@sircapaints.com

Notice is hereby given that the 15th Annual General Meeting of SIRCA PAINTS INDIA LIMITED ("the Company"), will be held on Friday, September 18th, 2020 at 12:30 P.M. through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means, to transact the business as set out in the Notice of 15th AGM.

The AGM will be held through Video Conference facility (VC)/ Other Audio Visual Acad (AUA) without about 100 per 1

Means (OAVM) without physical presence of the members, in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act'), MCA circulars dated May 5, 2020 ead with circulars dated April 8, 2020 and April 13, 2020 and SEBI circular dated May

The Company has engaged the services of KFin Technologies Private Limited ('KFin') for providing its members the facility for casting their votes by through the remote evoting platform and for participating in the 15th AGM through (VC)' (OAVM) facility along with e-voting during the AGM.

The remote e-voting facility shall commence on 14th September, 2020 (Monday) from 9:00 AM and end on 17th September, 2020 (Thursday) at 5:00 PM. The emote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

voling & video Conterencing/outer Audiovisaci means are available on the Company's website (www.sircapaints.com) and on the website of the National Stock Exchange of India Limited (www.nselndia.com). In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) section for shareholders and e-voting User Manual available at the "Downloads" section of https://evoting.karvy.com or may contact KF in at emeetings@kfintech.com or Helpline:1800.345.4001.

Helpline: 1800/3454001. Notice is also hereby given that pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rule, 2014 and Regulation 42 of SEBI (LODR), 2015 applicable rules thereunder the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 11th September, 2020 to Friday, 18th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

The names of the members appearing in the Register of members as on **Friday**, 11th **September**, 2020 ("Cut-off Date") shall be considered for the purpose of E-Voting for the purpose of the 15th" Annual General Meeting of the Company.

Chahat Mahajar Company secretary & Compliance officer Date : 24-08-2020

हाईडलबर्गसीमेंट इंडिया लिमिटेड

CIN: L26942HR1958FLC042301 पंजी, कार्यालय : 9वीं मंजिल, टॉवर 'सी' इनफिनिटी टॉवर्स, डीएलएफ साइबर सिटी फेज । । गुरुगाम, हरियाण—122002 Ph. +91 0124-4503700, Fax +91 0124-417699, Email ld: investors.md@mycem.in; Website: www.mycemco.com

सूचना यह हमारे पूर्व संचार दिनांक 18 अगरत, 2020 के निरंतर में है जिसके तहत हमने सूचित किया था कि निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपन्न नं. 14/2020, 17/2020 और 20/2020 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 05 मई 2020 ("एमसीए परिपन्नों") और भारतीय प्रतिभृति विनिम्य बोर्ड द्वारा जारी परिपन्न दिनांक 12 मई 2020 ("सेबी परिपन्न") के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की हार्वी वार्षिक माशारण बैठक 61वीं एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार व्यापार का लेन-देन करने के लिए कॉमन स्थान पर सदस्यों की मौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो

लन-दन करन के ालए कामन स्थान पर संवस्था का भारावक उपास्थात के ।बना वाडिया क्रिकेटीय विज्ञान कार्क्रमेरिया (वित्ती) / अन्य ओवियो विज्ञान माध्यम से शुक्रवार, 18 सितंबर, 2020 को सुबह 10.00 बजे आयोजित की जाएगी। बोर्ड की रिपोर्ट, अंक्रेक्षण की रिपोर्ट और एजीएम की सूचना वीसी / ओएवीएम सुविधा के द्वारा एजीएम से जुड़ने के लिए लॉग-इन विकरण के सिंहत उससे जुड़ने और और और ई-वोटिंग सुविधा के द्वारा वोट डालने के लिए आवश्यक अन्य दस्तावेजों सहित 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण व एजीएम की सूचना मंगलवार, 25 व्यापन 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण व एजीएम की सूचना मंगलवार, 25 व्यापन 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण व एजीएम की सूचना मंगलवार, 25 व्यापन 2020 को समाप्त वित्तीय को स्वरूप के लिए वित्तीय विवरण व एजीएम की सूचना मंगलवार, 25 व्यापन 2020 को जुन स्था महत्या के में स्वरूप की स्थापन 2020 की जुन स्था महत्या के में स्वरूप के स्थापन वित्तीय विवरण व एजीएम की सूचना मंगलवार, 25 व्यापन 2020 की समाप्त वित्तीय विवरण व एजीएम की सूचना मंगलवार, 25 व्यापन 2020 की समाप्त वित्तीय वितरण व एजीएम की सूचना मंगलवार, 25 व्यापन 2020 की समाप्त वितर्ण के स्थापन वितर्ण व प्रचान के स्थापन वितरण व प्रचान के स्थापन वितरण व प्रचान के स्थापन व प्रचान के स्थापन वितरण व प्रचान के स्थापन व प्रचान के स्थापन वितरण व प्रचान के स्थापन व स्थापन व स्थापन व स्थापन व स्थापन व स्थापन वितरण व स्थापन स्थापन व स्थाप अगस्त, 2020 को उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी है जिनके ई—मेल पते उपरोक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में कंपनी के रजिस्ट्रार या शेयर हस्तांतरण एजेंट या उनके संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागियों ("डीपी") के साथ पंजीकृत थे। वार्षिक रिपोर्ट 2019–2020 कंपनी की वेबसाइट www.mycemco.com] स्टॉव वा जानकारचार <u>एका 2019–2020 जनमा को यस्तिहरू www.nseindia.com</u> और नेशनत रुक्सार्वेज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com और नेशनत सेक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') www.evoting.nsdl.com पर र्म

.पनीज प्रबंधन व प्रशासनिक) नियमावली २०१४ के साथ पठित अधिनियम की धारा १०४ के प्रावधानों और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्ट्रीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सेब एलओडीआर) विनियमां, सचिवालय मानक—2 के विनियम 44 और एमसीए परिपन्नों के

भनुपालन में, सदस्यों को एजीएम की सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर रिमोट ई—वोटिंग एजीएम से पहले) और ई—वोटिंग (एजीएम के वीरान) के माध्यम से इलेक्ट्रानिक रूप से भगने वोट डालने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा प्रदान की जा रही है। ऐमोट ई—वोटिंग की शुरुआत मंगलवार, 15 सितंबर, 2020 को सुबह 9.00 बजे आईएसटी पर होगी और गरुवार. 17 सितंबर. 2020 को शाम 5.00 बजे आईएसटी पर बंद होगी। इस

अधिक के दौरान सदस्य इलेक्ट्रानिक रूप से अपने बोट डाल सकर्ते हैं। इसके बाद रिमोट ई—वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए एनएसडीएल द्वारा बंद कर दिए जाएंगे। एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपने वोट डालने वाले सदस्य वीसी / ओएवीएम सविधा दारा एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम के दौरान उपलब्ध ई—वोटिंग

विधा के माध्यम से दोबारा अपने वोट नहीं डाल सकते। कु सहस्य टाय एक प्रस्तात पर वोट डाले जाने के बाद परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। रिमोट ई—वोटिंग, एजीएम से जुड़ने और एजीएम के दौरान

ई-बोटिंग के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ-डेट अर्थात् शुक्रवार, रा। सितंबर, 2020 तक उनके द्वारा लिए गए इविवटी शोयाँ के अनुपात में होंगे। व्यक्ति जिनके नाम कट-ऑफ्-डेट तक डिपोजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में या सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वही एजीएम से जुड़ने, रिमोट ई—वोटिंग प्राप्त करने और एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे। कट—ऑफ्—डेट तक

जुपना आप एस के पार इन्यादिन पुजान आप एस के पान कार्य हो । । कट-जान-इट एक उदस्य न एको वाले सदस्य इस सूचना को केवल जानकारी के उददेश्य से देखें । जीएम की सूचना के इलैक्ट्रानिक प्रेषण की तिथि के बाद कंपनी के सदस्य बनने वाले . और शेयर प्राप्त करने वाले या कट—ऑफ —डेट तक शेयर रखने वाले व्यक्ति ही एजीएम जार रायर आरों फरने पाला यो क्यां-अपन निव्हें की सूचना में वर्णित अनुसार निर्देशों को अपनाकर और evoting@nsdl.co.in को अनुरोध मेजकर लॉग–इन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, यदि वह पहले ही रिमोट ई—वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वे अपने वोट डालने

हे लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी व पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। —वोटिंग सुविधा से संबंधित किसी पूछताछ के मामले में, कृपया तुरत पूछे जाने वाले iven (एफएक्यूज़) और evoting@nsdl.co.in पर डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध रोयरहोल्डर के लिए ई–वोटिंग यूजर पुस्तिका का संदर्भ लें या एनएसडीएल के टॉल फ्री न 1800—222—990 पर संपर्क करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें। ई–वोटिंग सुविधा से सुबंधित किसी शिकायत के लिए, कृपया सुश्री पल्लवी मात्रे, प्रबंधकृ नएसडीएलॅ. चौथी मंजिल. 'ए' टेड वर्ल्ड. कमला मिल्सॅ कम्पाउंड. सेनापति बापट मार्ग . गॉअर परेल, मुंबई 400013 ई—मेल : evoting@nsdl.co.in से संपर्क करें, टेली न

+912224994545 / 1800—222—990 पदि आपका ई—मेल पता आरटीए / डिपोजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत नहीं है तो आप रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें :

Allicias allicii	ई-मेल पता रजिस्टर करने के लिए फोलियो नं., शेयरधारक क नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैनड प्रति (आगे व पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैनड प्रति), आधार (आधार की स्व- सत्यापित स्कैनड प्रति) तेते हुए irg@integratedindia.in

अपने डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया अनुसार अपने डिभेट खाते में बैंक खाता विवरण अपडेट करने व अपना ई—मेल पता रजिस्टर करने के लिए अपने डिपोजिटरी प्रतिभागी (डीपी) से संपर्क करें। अभौतिक धारिता

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एजीएम में भाग लेने और वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिए अंतिम लागांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उददेश्य से शुक्रवार, 11 सितंबर 2020 को "किंकों है करने के स्तर तत किया है। एजीएम पर इतिकटी शेयरों प्र अंतिम लागांश यदि घोषित होता है, एजीएम की तिथि से तीस दिनों के र सदस्यों को चुकता किया जाएगा। हाईडलबर्गसीमेट इंडिया लिमिटेड

राजेश रेलन लीगल हैड एवं कंपनी सचिव स्थान : गुरुग्राम दिनांक : 25 अगस्त, 2020

बिक्री सूचना श्री नर्सिंग देव शूगर प्राइवेट लिमिटेड (ऋणशोधन में) (कंपनी) पंजी. कार्या. गांव सैदपुर, पोस्ट दत्त नगर, बागपन—250628, उत्तर प्रदेश, इंडिया स्थान जहां खाता पुस्तकें व पेपसे सुरक्षित हैं : गांव सैदपुर, पोस्ट दत्त नगर, बागपन—250628, उत्तर प्रदेश, इंडिया ऋणशोधक: बोदिता जैन (सुशी) ऋणशोधक का पता : 35बी / 6, माधोकुंज, पाममोहन प्लाजा, इलाहबाबद—211002, उप्र, इंडिया Fmail: im shringsripp@mail com. Contact No : 491-8335115277

Email: irp.shrinarsing@gmail.com, Contact No: +91-9335115227 : IP)-snnnarsing@gmail.com, voniact No. 7317355173551 ई — नीतामी दिवालियापन कोड, 2016 के विनियम 32 (बी) व 32 (बी) के अंतर्गत कंपनी की परिस्पारित्यों की बिक्री नीतामी की तिथि व समय . 8 सितंबर, 2020 को दोप 2,00 से शाम 6,00 बजे तक (5 मिनट प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ)

() निगट अपने के जाना निर्माल किया है। प्रमुत्ताल, इलाहाबाद बेंच, इलाहाबाद आदेश दिनाक 23. नियुक्त परिसमापक के कब्जे में श्री निर्मिग देव शुगर प्राइवे मक कंपनी की परिसपत्तियों की बिक्री। कंपनी की बिक्री ईं—नीला तहत इसक द्वारा (ऋणशोधन में) ना ction auctiontiger net के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी

बिक्री का आरक्षित मूल्य ईएमडी राशि बोली

	स		तराका	(₹.)	जमा कराने की अंतिम तिथि	वृद्ध मूल्य
	1	आईबीबीआई ऋणशोधन विनियमों, 2016 के विनियम 32(बी) के अनुपालन में लम्पसम्प में वाहन परिसंपत्तियों को छोड़कर परिसंपत्ति मेमोरेंडम अनुसार सभी परिसंपत्तियों के साथ पुरा प्लांट व मशीनरी व भूमि व बिल्डिंग	आईबीबीआई ऋणशोधन विनियमों, 2016 के विनियम 32 (बी) के अनुपालन में लम्पसम्प परिसंपत्तियां	7,75,00,000/- रु. सात करोड़ पिचहत्तर लाख केवल	50,00,000/ रु. पचास लाख केवल	100,000/ ਨ. एक लाख केवल
	2	आईबीबीआई ऋणशोधन विनियमों, 2016 के विनियम 32(बी) के अनुपालन में लम्पसम्य में वाहन परिसंपत्तियों को छोड़कर परिसंपत्ति मेमोरेंडम अनुसार सभी परिसंपत्तियों के साथ पूरा प्लांट व मशीनरी	आईबीबीआई ऋणशोधन विनियमों, 2016 के विनियम 32 (डी) के अनुपालन में लम्पसम्प परिसंपत्तियां	6,05,00,000/- रु. छह करोड़ पांच लाख केवल	35,00,000/- रु. तीस लाख केवल	100,000/- • ਦ ਦ ਗਾਂख कੇवल
		भूमि बियरिंग खसरा नं. 279, 352ए, 352बी, 348, 354 दत्ता नगर उगती निक रोड, गांव सैदपुर उर्फ नथलामपुर जिला बागपत (उप्र)— 1,1525,00 वर्ग मी / 1783,90 वर्ग यार्ड एसपर फ्री होल्ड मूर्गि व इंडस्ट्रियल बिल्डिंग	आईबीबीआई ऋणशोधन विनियमाँ, 2016 के विनियम 32 (डी) के अनुपालन में पार्सल परिसंपत्तियां	2,40,00,000/- रु. दो करोड़ चालीस लाख केवल	20,00,000/- रु. बीस लाख केवल	100,000/- • ਦਾ ਦਾ ਜਾਂਦ ਕੇਬਜ
ई—नीलामी के नियम व शर्ते निम्नानुसार हैं :						

4

निर्माण के निर्माण किया है। इस्ते वरीयता लम्पसम्प बिक्री के प्रस्तावों को दी जाएगी और अन्य दो निष्कल होंगे। दूसरे व तीसरे मामले में, तीसरे के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा जब प्लाट व मशीनर्र पहुंचेगी अन्यथा निष्कल होंगे।

बहुरना जप्यबा निर्माल होना ई-नीलामी अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजिस लिमिटेड (ऑक्श टाइनर) द्वारा 'जहां है जैसी है'', ''जो है जैसी है'' और ''जहां कहीं है' के आधार पर आयोजित की जाएगी।

को जाएगा। परिसपित्सियों के विवरण सहित पूर्ण ई—मीलामी प्रक्रिया दस्तावेज, ऑनलाइन ई—मीलामी बोर्ल फोर्म, घोषणा पत्र और अंडस्टेरिंग फोर्म, ऑनलाइन मीलामी बिक्की को सामान्य नियम व शर् वेबसाइट पर प्रपलब हैं। स्मिक करें - भीन-**35(186834/079, 61200 580/554/ 594/588** पर श्री तिलक मराठा व श्री पुष्पित मारू ई—मेल:

Tilak@auctiontiger.net/ <u>Pushpit@auctiontiger.net</u>/ Support@auctiontiger.net <u>हस्ता./</u> नाम : **बि**ता जैन नांक : 24.08.2020 पद : ऋणशोधक दिनांक : 24.08.2020

IBBI Regn No: IBBI/IPA-002/IP-N00321/2017-18/10926 स्थान : इलाहाबाद

पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

(सीआईएन: L74899DL1989PLC036849) पंजीकृत कार्यालयः ए—3, कम्युनिटी सेन्टर, नारा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-॥, नई दिल्ली—110028 ई-मेलः investor.pgil@pearlglobal.com वेबसाइटः www.pearlglobal.com फोनः 0124-4651000

शेयरधारकों हेतु सूचना

विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) खाते में शेयरों के अंतरण हेतु (कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 124(6) के अनुसार)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के प्रावधानों के साथ पठित विनिधानकर्त शिक्षा और संरक्षण निधि (आईइपीएफ) प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अंतरण और प्रतिदेय) नियम, 2016 ("नियम") के अनुपालन में कम्पनी के शेयरों, जिनके संबंध में लाभांश लगातार सात वर्षों अथवा उससे अधिक अवधि से अदत्त अथवा गैर–दावाकत हैं, को कम्पनी द्वारा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आईइपीएफ खाते में अंतरित किया जाना वांछित है।

कम्पनी ने सम्बद्ध शेयरधारकों को, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अपने लामांश तथा कम्पनी द्वारा घोषित एवं भुगतान किए गए सभी उत्तरवर्ती जामांश का दावा नहीं किया है, जो कि उक्त नियमों के अनुसार आईइपीएफ खाते में अंतरित होने हेतु संभाव्य हैं, को व्यक्तिगत संचार भेजा है।

ऐसे शेयरधारकों की एक सची, जिन्होंने लगातार सात वर्षों से अपने लाभांश का दावा नहीं किया है एवं जिनके शेयर परिणामस्वरूप आईडपीएफ खाते में अंतरित होने हेत संभाव्य हैं, कम्पनी की वेबसाइट <u>https://www.pearlglobal.com/investors/</u> <u>unpaid-unclaimed-dividend</u> पर उपलब्ध है।

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि शेयरों तथा गैर–दावाकृत लाभांश राशि(ओं) पर दावा करने हेतु संचार में उक्त आवश्यक दस्तावेजों को कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट को 25 अक्टूबर, 2020 या उससे पूर्व अग्रेषित करें। एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि शेयरधारक द्वारा वैध दावे की प्राप्ति के अभाव में, कम्पनी .. उक्त नियमों की आवश्यकतानसार बिना किसी अतिरिक्त सूचना के, कथित शेयरों को आईइपीएफ खाते में अंतरित करेगी।

कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार आईइपीएफ में अंतरित गैर–दावाकृत लाभांश राशि एवं शेयरों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। कृपया ध्यान दें कि इस तरह के अंतरण पर, शेयरधारक अंतरित शेयरों को लाभांश सहित आईइपीएफ से दावा कर सकते हैं, जिसके लिए विवरण www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

इस सम्बन्ध में किसी भी जानकारी / स्पष्टीकरण हेत्, सम्बद्ध शेयरधारक कम्पनी को <u>investor.pgil@pearlglobal.com</u> पर लिख[ै]सकते हैं अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार व शेयर ट्रांसफर एजेंट – मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नोबल हाइट्स, पहली मंजिल, प्लॉट एनएच 2, सी—1 ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली – 110058 फोनः 011–49411000. ई–मेलः delhi@linkintime.co.in से संपर्क कर सकते हैं।

कृते पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

दिनांक : 25 अगस्त. 2020

पंजीकृत एवं कोपोरंट कार्यालय : 502, टॉवर-ए. पॉननमुला बिजिन्स पार्क, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-400 सर्किल कार्यालय : कैग्रि ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, दूसरी मंजिल, उन्नी, पूसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110005 परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एयं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचना दो जाती है कि प्रतिभृत लेनदार के पास बंधकप्रभारित नीचे वर्णित अचल जारपान भारत के प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त के प्राप्त प्रमाण प्राप्त प्राप्त के किया है। जिस के किया प्राप्त सम्मित जिस पर कैपी स्वीवत कैटिल लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार द्वार रचनात्मक भौतिक कब्जा कर लिया या है, नीचे वर्षित राशि की वसुली हेतु निम्नलिखित तिथियों पर ''जहाँ है जैसे हैं'', ''जो है यही है''तथा ''जो कुछ भी है वहीं हैं'' आधार पर विक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्मित का विवरण नीचे वर्णित है।

ľ	नाच वागत ह।				
	त. 1. कर्जदार(रों) का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	1. आरक्षित मूल्य	
	i. 2. बकाया राशि . 1. सरस्वती एजूकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर सोसाइटी	भूमि निगम/प्लॉट सं. 40, माप क्षेत्रफल 684 वर्ग गज, खसरा नं.	3. सम्पात के निराक्षण की Iताय एव	 सम्पत्ति की ईएमडी वर्धित मूल्य 	
	(''कर्जदार') 2. श्री नवीन कुमार 3. श्रीमती वशोदा (सह-कर्जदार) ऋण खाता सं. : LNMEKKD000016745 रुपये 1,00,37,989/- (रुपये एक करोड़ सैंतीस हजार नौ सौ नवासी मात्र) तथा 17.02.2020 से प्रयोज्य भावी व्याज	286 में से, चिपियाना बुजुर्ग, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201307 पर स्थित। साथ ही उस पर वर्तमान तथा भावी निर्माण	समय 1. ई-नीलामी की तिथि : 29.09.2020 (3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच)	जमा धरोहर राशि : रु १२ २८ ०००/- (रुपये बारह	
1	. 1. ईगल एन्टरप्राइजेज (''कर्जदार'') 2. श्री अमरजीत सिंह 3. श्रीमती महिन्दर कोर 4. श्री राजवीर सिंह (त्रह-कर्जदार) ऋण खाता सं.: LNMENOI000010168 रुपये 63,55,721/- (रुपये तिरेसट लाख प्रचपन हजार सात सी इक्कीस माज, त्रेला व	तीसरी मंजिल, पॉकेट-एजी-1, विकास पुरी (बोदेला) आवासीय स्कीम विकासपुरी, नई दिल्ली- 110018 का सम्पूर्ण भाग साथ ही	1. ई-नीलामी की तिथि : 29.09.2020 (3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच) 2. केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की	आरक्षित मुल्य : रु. 56,50,312/- (रुपये छप्पन लाख पचास हजार तीन सौ बारह मात्र) जमा घरीहर राशि : रु. 5,66,000/- (रुपये पाँच लाख छित्रयासट हजार मात्र) विधत मृल्य : रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)	
13	. माला इलेक्ट्रिकल्स (''कर्जदार'') 2. श्री योगेश कुमार शर्मा. 3. श्रीमती माला शर्मा (सह-कर्जदार) ऋण खाता सं. : LNCGCKKDTL0000004418 रुपये 97,21,653/- (रुपये सत्तानये लाख इक्कीस हजार छ: सी तिरेपन मात्र) तथा 29.02.2020 से प्रयोज्य भावी व्याज	सम्पत्ति सं. 10/47, क्षेत्रफल 87 वर्ग गज, खसरा नं. 4941/1043 से 1042/792 मिन. पटेल गली, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली- 110032 का सम्पूर्ण भाग तथा साथ ही उस पर वर्तमान तथा भावी निर्माण	 ई-नीलामी की तिथि: 29.09.2020 (3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच) के वाईसी मित्र व्हंपसडी जमा करने की अन्तिम तिथि: 28.09.2020 निर्सिक्षण की तिथि: 25.09.2020 	आरक्षित मूल्य: रु. 79,18,800/- (रुपये उन्यासी लाख अठारह हजार आठ सी मात्र) जमा धरोहर रहिल: रु. 7,92,000/- (रुपये सात लाख बानबे हजार मात्र) वर्षित मूल्य: रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)	
4	2. श्री विनोद 3. श्रीमती प्रमीला देवी (सह-कर्जदार) ऋण खाता सं.: LNCGCKKDTL0000003345 रुपये 1,02,58,036/- (रुपये एक करोड़ दो लाख	प्लॉट सं. 3 (पुराना सं. 8) माप क्षेत्रफल 112.5 वर्ग गंज, खसरा ने. 800, खेवट सं. 95/2, खाता सं. 205, महल मुदालयहटवस्त, ग्राम कलीला, पचदान, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 का सम्पूर्ण भाग तथा साथ ही उस पर वर्तमान तथा भावी निर्माण	ई-नीलामी की तिथि : 29.09.2020 (3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच) के बाईसी हैं हैं कि स्वादेश के स्वादेश के बाईसी से हैं हैं कि से से कि से	आरक्षित मूल्य : रु. 41,24,525/- (रुपये इकतालीस लाख चौबीस हजार पाँच सी पच्चीस मात्र). जमा धरोहर राशि : रु. 4,13,000/- (रुपये चार लाख तेरह हजार मात्र) वर्षित मूल्य : रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र)	
49	. 1. श्री लक्ष्मी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (''कर्जदार'') 2. श्री गौरव शर्मा 3. श्रीमती लक्ष्मी शर्मा 4. श्री उमेश शर्मा 5. श्री दया शंकर शर्मा 6. श्री लक्ष्मी शर्क लक्ष्मिटेंग प्राइवेट लिमिटेड ('सह-कर्जदार) ऋण खाता सं.: LNSEDEL000011894 रुपये 81,10,289/ (रुपये इक्यायती लाख दस हजार दो सी नवासी मात्र) तथा 29.02.2020 से प्रयोज्य भावीं व्याज	खसरा नं. 1362/599/1, माप क्षेत्रफल 2 बिस्वा तथा 19 बिस्वांसी, मौजा खांडसा, गुरुग्राम, हरियाणा-122001 तथा साथ ही उस पर वर्तमान तथा भावी निर्माण	 ई-नीलामी की तिथि: 29.09.2020 (3.00 बजे अप. से 4.00 बजे अप. के बीच. ट. केवाईसी सिंत इंप्पडी जमा करने की अन्तिम तिथि: 28.09.2020 निरीक्षण की तिथि: 25.09.2020 	आरक्षित मूल्य : रु. 1,14,53,280/- (रुपये एक करोड़ चींदह लाख तिरंपन हजार दो सौ अस्सी मात्र) जमा धरोहर राहिए : रु. 11,46,000/- (रुपये ग्यारह लाख छियालीस हजार मात्र) वर्धित मूल्य : रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र)	

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शतौं के लिए कृपया कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभृत लेनदार की वेबसाइट www.Capriglobal.in/auction/ में प्रावधानित लिंक का सन्दर्भ लें।

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्ते :

ा रिक्त पर रिक्ता के किया है . 1. सम्मति की बिक्री ''जहाँ है जैसे हैं, जो है वहीं है तथा उपचार रहित आधार'' पर को जा रही हैं। क्योंकि बिक्री बिना किसी वारंटी तथा इंडीमन्टी के हैं। 2. ई-नीलामी बिक्री सूचना में सम्पत्ति/आस्तियों के बिवरण (जैसे बिस्तार तथा माप) प्रतिभूत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं और प्रतिभूत लेनदार किसी बुटि, गलत बयानी व विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार तथा माप में अन्तर हो सकता है।

3. प्रतिभृत लेनदार द्वारा निर्गत ई-नीलामी बिक्री सूचना अपनी संविदाएँ जमा करने हेतु जनसामान्य के लिए एक आमन्त्रण है और प्रतिभृत लेनदार के पक्ष में कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधान नहीं नहीं निर्मित करती है और न करती हुई मानी जायेगी। इच्छुक संविदाकारों को अपनी संविदा/एँ जमा करने से पूर्व सम्पत्ति/आस्तियों के स्वामित्व तथा वर्तमान दशा एवं सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के विषय में अपना स्वतन्त्र पुरुवाछ/इयू डिलिजंस संचालित करने की सलाह दी जाती है। 4. नीलामी केवल वेबसाइट https://sarfacsi.auctiontiger.net के माध्यम से ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड'' में अथवा सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद हारा प्रावधानित ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप के माध्यम से संचालित की जायेगी जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था तथा समन्वयन करेंगे।

. संविदाकार अपने मनचाहे स्थान से संविदा हेतु ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टियिटी की व्यवस्था संविदाकार के स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभृत लेनदारुसेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम कैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया वाथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन बोली के लिए सम्भावित संविदाकार सेवा प्रदाता मैससं ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नं. 079 61200531/576/596/559/598/587/594/.), श्री रामप्रसाद शर्मा, मोबाइल नं. 800-002-3297/ 79-6120 0559. ई-मेल : ramprasad@auctiontiger.net, से सम्पर्क कर सकते हैं। 7. ई-नीलामी विक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक संविदाकार को अग्रिम रूप से अपना नाम https://sarfaesi.auctiontiger.net पंजीकृत कराना होगा और यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुत संविदाकारों को सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त होने के तुरन्त बाद अपना पासवर्ड बदल लेने की सलाह दी जाती है।

8. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकार को आरक्षित मुल्य के 10% की प्रतिदेय ईएमडी जमा करनी होगी जो 28 सितम्बर, 2020 को या इससे पूर्व ''कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड'' के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी है।

. इच्छुक संविदाकार ईएमडी के प्रति डिमाण्ड ड्राफ्ट रेमिटेंस सहित विधिवत डरे संविदा प्रपत्र (प्रारूप https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) एक मुहरबन्द लिफाफे में अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को सम्बोधित, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 3बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली–110005 के पास अधिकतम 28 सितम्बर, 2020 को 03.00 बजे अप. तक भेजने हैं। .. (जैसा ऊपर उल्लिखित है) में ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतू संविदा'' लिखना होना चाहिए। मुहरबन्द लिफाफे पर''(कर्जदार का नाम) की सम्पत्ति हेतु ऋण खाता सं. ... 10. इंपमडी सहित संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि समाप्त होने पर अधिकत प्राधिकारी प्राप्त संविदाओं की जाँच करेंगे और क्वालफाइड संविदाकारों (जिन्होंने आरक्षित मल्य से अधिक अपने कोट

किये हैं और प्रतिभृत लेनदार के पास निर्दिष्ट ईएमडी जमा कर दी है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास करेंगे ताकि केवल वें ही संविदाकार ऑनलाइन इंटर-से बोली/नीलामी प्रक्रिया में ई-नीलामी बिक्री सूचना में उल्लिखित तिथि एवं समय पर भाग ले सकें। 11. क्वालिफाइड संविदाकारों के मध्य इंटर-से बोली क्वालिफाइड संविदाकारों द्वारा उच्चतम कोट की गयी बोली से प्रारम्भ होगी। इंटर-से बोली पुक्रिया के दौरान ''10'' मिनट पुत्येक का असीमित

. वेस्तार समय होगा अर्थात यदि बोली अन्तिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगायी जाती है तो ई-नीलामी बोली का अन्तिम समय प्रत्येक बार स्वतः ही 10 मिनट बढ़ जायेगा।

12. एक बार लगाई गयी बोली निरस्त नहीं होगी। संविदाकार को प्रदत्त युजर आईडी से लगायी गयी बोली केवल उसी के द्वारा लगायी गयी मानी जायेगी। ा कि है -नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के तुरन्त बाद उच्चतम संविदाकार ई-मेल हारा अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 3बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005 तथा सेवा प्रदाता के पास ई-नीलामी प्रक्रिया में सफल संविदाकार घोषित होने के लिए अपने हारा कोट की गयी अन्तिम संविदा राशि की पुष्टि ई-मेल हारा करेगा।

14. सफल संविदाकार को अपने पक्ष में होने पर संविदा राशि का 25% (ईएमडी सहित) बिक्री के ही दिन जमा करना होगा तथा शेष 75% राशि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक द्वार बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। 15. सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय में उपर्युक्त निर्दिष्ट राशियों का भुगतान करने में चूक करने पर बिक्री निरस्त कर दी जायेगी और पहले से जमा राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर

ली जायेगी और सम्पत्ति को पुनः बिक्री पर रखा जायेगा।

16. सफल संविदाकार के निवेदन पर अधिकृत प्राधिकारी अपने विवेक से संविदा राशि का शेष भाग जमा करने हेतु लिखित में अधिक समय की स्वीकृति दे सकते हैं। 17. सफल संविदाकार विक्री मुल्य का 1% टीडीएस (विक्री कार्यवाहियों में से) अदा करेगा और अधिकृत प्राधिकारी के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा तथा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि से 15 कार्यकारी दिनों के भीतर अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर किसी अन्य विस्तारित तिथि तक ईएमडी समायोजित करने के पश्चात विक्री मूल्य की सम्पूर्ण राशि (1% टीडीएस कटौती को घटाकर) जमा करनी होगी जिसमें असफल रहने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

18. नगर निगम,पंचायत कर, बिजली के बकाये (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण के बकाये (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल संविदाकार को करना होगा। संविदाएँ सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विधिक बकायों पर विचार करते हुए तैयार की जायेंगी।

19. बिक्री प्रमाणपत्र सम्पूर्ण क्रय राशि/संविदा राशि जमा करने तथा सम्पूर्ण करों/प्रभारों के भुगतान के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक प्रमाण का उल्लेख करने के उपरान्त ही सफल संविदाकार के पक्ष में अधिकृत

20. कन्वीएंस, स्टैम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभार एवं अन्य आकरिमक प्रभारों हेतु प्रयोज्य विधिक प्रभारों का वहन नीलामी क्रेता द्वारा किया जायेगा। 21. अधिकृत प्राधिकारी बिना कोई कारण बताये ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया को स्थिगित/निरस्त कर सकते हैं। यदि ई-नीलामी बिक्री निर्धारित तिथि के 30 दिनों से पूर्व किसी बाद की तिथि को स्थिगत की जाती है तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

22. अधिकत प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी तथा प्रश्नचिहन रहित होगा। 24. अधिक विवरण एवं पुछताछ के लिए सम्पर्क करें : अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, श्री सुशील गुप्ता, मोबाइल नं. 7400445137

25. यह प्रकाशन उपर्यंक्त तिथारस्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित होने के विषय में प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अनसार कथित उपर्यंक्त ऋण खाते के कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतियों हेतु 30 (तीस) दिनों सूचना भी है। विशेष निर्देश होतावती - अन्तिम मिन्ट सेक्पड में बोली लगाने से संविदाकार कराये के दिन में बचें। न तो कैपी खोबल कैपिटल लिमिटेड और न ही सेवा प्रतान प्रेसे मामलों में संविदाकार के प्रथ पर किसी खामी/फेल्योर (इंटरनेट फेल्योर, पॉवर फेल्योर आदि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी विषम परिस्थिति से बचने के लिए संविदाकार समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ विकल्प जैसे बैक-अप पॉवर सप्लाई

तथा जो कुछ भी अन्य अपेक्षित हो, कर लें ताकि वे ऐसी विषम परिस्थिति से निपट सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। स्थान : दिल्ली+रा.रा.क्षे. तिथि : 26.08.2020 ह./- (अधिकृत प्राधिकारी) कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

PearlGlobal